



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 927]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 22, 2001/पौष 1, 1923

No. 927]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 22, 2001/PAUSA 1, 1923

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2001

का.आ. 1254(अ).—केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम नियम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 200 के अनुसरण में मुख्य नियंत्रक की सिफारिश पर और लोकहित में पेट्रोलियम के आयात की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत में निम्नलिखित पत्तनों पर एक वर्ष की अवधि के लिए समुद्र द्वारा पेट्रोल के आयात की बाबत उक्त नियमों के नियम 16 से छूट प्रदान करती है :

राज्य	पत्तन
गुजरात	जगेश्वर/दहेज
गुजरात	मूलहारका
गुजरात	पिपावध
गुजरात	मुन्द्रा
गुजरात	हजीरा
आन्ध्र प्रदेश	काकीनाडा
कर्नाटक	करवार
उड़ीसा	पारदीप
महाराष्ट्र	जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (नावा सेवा)

ऊपर प्रदान की गई छूट पत्तन क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर पेट्रोलियम के आयात और उसे हैंडलिंग के संबंध में सुसंगत अधिनियमों या उनके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन पूरी की जाने वाली शर्तें या अपेक्षाओं के अध्वधीन होगी।

पाद टिप्पण :—मूल नियम सा.का.नि. 479(अ), तारीख 30 जून, 1976 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और जिनका समय-समय पर संशोधन किया गया था और अंतिम बार संशोधन का.आ. 616(अ) तारीख 21 जुलाई, 1998 द्वारा किया गया था।

[सं. पी-23011/22/2001-एसयूपी]

शिवराज सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2001

S.O. 1254(E).— In pursuance of rule 200 of the Petroleum Rules, 1976 (hereinafter to be referred as said rules), the Central Government on the recommendation of the Chief Controller and in consideration of the necessity to import petroleum, in public interest, hereby grants exemption from the provisions of rule 16 of the said rules in respect of import of petroleum, into India by sea at the following ports for a period of one year.

STATE	PORTS
Gujarat	Jageshwar/Dahej
Gujarat	Muldwarka
Gujarat	Pipavav
Gujarat	Mundra
Gujarat	Hazira
Andhra Pradesh	Kakinada
Karnataka	Karwar
Orissa	Paradeep
Maharashtra	Jawaharlal Nehru Port Trust (Nhava Sheva)

The exemption granted shall be subject to fulfilment of conditions or requirements to be complied with under relevant Acts or Rules made thereunder in connection with importation and handling of petroleum within the limits of port areas.

Foot Note :— The Principal Rules were published vide G.S.R. 479(E) dated 30th June, 1976 and last amended vide S.O. 616(E) dated 21st July, 1998.

[No. P-23011/22/2001-Sup.]

SHIVRAJ SINGH, Jt. Secy.